



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012020-215651
CG-DL-E-23012020-215651

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]
No. 285]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2020/माघ 2, 1941
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2020/MAGHA 2, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2020

का.आ. 296(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 3 के खंड (ड.) के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित पदार्थों को सम्मिलित करती है, अर्थात्—

उक्त अधिनियम की अनुसूची में, फ्लोराइलपिकोक्सामाइड से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

समान्य नाम सीएएस/सीएएस आर एन सं. आईयूपीएसी/संक्षिप्त रासायनिक नाम

“फेनप्रोपाईमार्फ 67564-91-4 (+-) सिस – 4 – [3 – (4 – टर्ट –
ब्यूटाइलफिनाइल) – 2 – मिथाइलप्रोपाइल]
– 2, 6 – डाईमिथाइल मार्फोलीन ।”

[फा. सं. 13029/01/2019-पी.पी.-I]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 9(अ), तारीख 9 जनवरी, 1974 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे—

1. सा.का.नि. 823(अ), तारीख 28 सितंबर, 1976,
2. सा.का.नि. 200(अ), तारीख 29 मार्च, 1978,
3. सा.का.नि. 574(अ), तारीख 6 अक्टूबर, 1979,
4. सा.का.नि. 32(अ), तारीख 12 फरवरी, 1980,
5. सा.का.नि. 501(अ), तारीख 17 जुलाई, 1982
6. सा.का.नि. 500(अ), तारीख 18 जून, 1985
7. सा.का.नि. 839(अ), तारीख 14 नवंबर, 1985,
8. सा.का.नि. 31(अ), तारीख 15 जनवरी, 1987,
9. सा.का.नि. 511(अ), तारीख 22 मई, 1987
10. सा.का.नि. 858(अ), तारीख 12 अगस्त, 1988,
11. सा.का.नि. 13(अ), तारीख 5 जनवरी, 1990,
12. सा.का.नि. 987(अ), तारीख 20 दिसंबर, 1990,
13. सा.का.नि. 576(अ), तारीख 26 अगस्त, 1993,
14. सा.का.नि. 577(अ), तारीख 26 अगस्त, 1993,
15. सा.का.नि. 730(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 1995,
16. सा.का.नि. 10(अ), तारीख 3 जनवरी, 1996,
17. सा.का.नि. 538(अ), तारीख 21 नवंबर, 1996,
18. सा.का.नि. 621(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 1997,
19. सा.का.नि. 224(अ), तारीख 26 मार्च, 1999,
20. सा.का.नि. 672(अ), तारीख 28 सितंबर, 1999,
21. सा.का.नि. 868(अ), तारीख 15 नवंबर, 2000,
22. सा.का.नि. 69(अ), तारीख 5 फरवरी, 2001,
23. सा.का.नि. 181(अ), तारीख 13 मार्च, 2001,
24. सा.का.नि. 291(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2002,
25. सा.का.नि. 772(अ), तारीख 18 नवंबर, 2002,
26. सा.का.नि. 523(अ), तारीख 3 जुलाई, 2003,
27. सा.का.नि. 378(अ), तारीख 24 जून, 2004,
28. सा.का.नि. 744(अ), तारीख 16 नवंबर, 2004,
29. सा.का.नि. 198(अ), तारीख 31 मार्च, 2005,
30. सा.का.नि. 651(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2005,
31. सा.का.नि. 51(अ), तारीख 6 फरवरी, 2006,
32. सा.का.नि. 683(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2006,
33. सा.का.नि. 631(अ), तारीख 28 सितंबर, 2007,
34. सा.का.नि. 650(अ), तारीख 11 सितंबर, 2008,
35. सा.का.नि. 799(अ), तारीख 19 नवंबर, 2008,
36. सा.का.नि. 384(अ), तारीख 4 जून, 2009,

37. सा.का.नि. 5(अ), तारीख 5 जनवरी, 2010,
38. सा.का.नि. 316(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2010,
39. सा.का.नि. 764(अ), तारीख 15 सितंबर, 2010,
40. सा.का.नि. 400(अ), तारीख 25 मई, 2011,
41. सा.का.नि. 908(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2011,
42. सा.का.नि. 380(अ), तारीख 24 मई, 2012,
43. सा.का.नि. 111(अ), तारीख 20 फरवरी, 2013,
44. सा.का.नि. 446(अ), तारीख 28 जून, 2013,
45. सा.का.नि. 313(अ), तारीख 6 मई, 2014,
46. सा.का.नि. 790(अ), तारीख 11 नवंबर, 2014,
47. का.आ. 3385(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2016,
48. का.आ. 3304(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2017,
49. का.आ. 45(अ), तारीख 4 जनवरी, 2019 और
50. का.आ. 1767(अ), तारीख 17 मई, 2019 ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2020

S.O. 296(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (e) of section 3 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticide Board, hereby includes the following substance in the Schedule to the said Act, namely:-

In the said Act, in the Schedule, after the entries relating to florylpicoxamid, the following entry shall be inserted, namely: -

Common Name	CAS/CAS RN No.	IUPAC/Chemical Abstract Name
“Fenpropimorph	67564-91-4	(+ -) cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine.”

[F. No. 13029/01/2019-PP-I]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Note : The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 9(E), dated the 9th January, 1974 and subsequently amended *vide* the following:-

1. G.S.R. 823(E), dated the 28th September, 1976,
2. G.S.R. 200(E), dated the 29th March, 1978,
3. G.S.R. 574(E), dated the 6th October, 1979,
4. G.S.R. 32(E), dated the 12th February, 1980,
5. G.S.R. 501(E), dated the 17th July, 1982,
6. G.S.R. 500(E), dated the 18th June, 1985,
7. G.S.R. 839(E), dated the 14th November, 1985,
8. G.S.R. 31(E), dated the 15th January, 1987,
9. G.S.R. 511(E), dated the 22nd May, 1987,
10. G.S.R. 858(E), dated the 12th August, 1988,
11. G.S.R. 13(E), dated the 5th January, 1990,

12. G.S.R. 987(E), dated the 20th December, 1990,
13. G.S.R. 576(E), dated the 26th August, 1993,
14. G.S.R. 577(E), dated the 26th August, 1993,
15. G.S.R. 730(E), dated the 30th October, 1995,
16. G.S.R. 10(E), dated the 3rd January, 1996,
17. G.S.R. 538(E), dated the 21st November, 1996,
18. G.S.R. 621(E), dated the 27th October, 1997,
19. G.S.R. 224(E), dated the 26th March, 1999,
20. G.S.R. 672(E), dated the 28th September, 1999,
21. G.S.R. 868(E), dated the 15th November, 2000,
22. G.S.R. 69(E), dated the 5th February, 2001,
23. G.S.R. 181(E), dated the 13th March, 2001,
24. G.S.R. 291(E), dated the 19th April, 2002,
25. G.S.R. 772(E), dated the 18th November, 2002,
26. G.S.R. 523(E), dated the 3rd July, 2003,
27. G.S.R. 378(E), dated the 24th June, 2004,
28. G.S.R. 744(E), dated the 16th November, 2004,
29. G.S.R. 198(E), dated the 31st March, 2005,
30. G.S.R. 651(E), dated the 31st October, 2005,
31. G.S.R. 51(E), dated the 6th February, 2006,
32. G.S.R. 683(E), dated the 31st October, 2006,
33. G.S.R. 631(E), dated the 28th September, 2007,
34. G.S.R. 650(E), dated the 11th September, 2008,
35. G.S.R. 799(E), dated the 19th November, 2008,
36. G.S.R. 384(E), dated the 4th June, 2009,
37. G.S.R. 5(E), dated the 5th January, 2010,
38. G.S.R. 316(E), dated the 13th April, 2010,
39. G.S.R. 764(E), dated the 15th September, 2010,
40. G.S.R. 400(E), dated the 25th May, 2011,
41. G.S.R. 908(E), dated the 29th December, 2011,
42. G.S.R. 380(E), dated the 24th May, 2012,
43. G.S.R. 111(E), dated the 20th February, 2013,
44. G.S.R. 446(E), dated the 28th June, 2013,
45. G.S.R. 313(E), dated the 6th May, 2014,
46. G.S.R. 790(E), dated the 11th November, 2014,
47. S.O. 3385(E), dated 27th October, 2016,
48. S.O. 3304(E), dated 6th October, 2017,
49. S.O. 45(E), dated 4th January, 2019, and
50. S.O. 1767 (E) dated 17th May, 2019.